Delton Gables Limited

Regd office: 'Delton House, 4801, Bharat Ram Road 24, Darya Ganj, New Delhi - 110002 (INDIA)

Phone: 91-11-23273907

E-mail: dcl@deltoncables.com, Website: www.deltoncables.com

CIN: L31300DL 1964PL C004255

AN ISO 9001-2008 COMPANY

To,

Date: February 16, 2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai - 400 001

BSE Scrip Code: 504240

Sub: Intimation for publication of Newspaper of Unaudited Financial Results under

Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.

Dear Sir,

Further to our letter dated February 14, 2023, regarding approval of Unaudited Financial Results

of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2022. Please find enclosed

newspaper advertisements published, in compliance with Regulation 30 and Regulation 47 of

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, in Pioneer (English) and Pioneer (Hindi).

Thanking you,

Yours faithfully

For Delton Cables Limited

Vikas Rawat

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

China threatens US entities S Korea: Unlikely that Kim's over downing of balloon

hina said on Wednesday it will take measures against US entities related to the downing of a suspected Chinese spy balloon off the American East Coast. At a daily briefing, Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin gave no details and did not identify the targets of the

China says the balloon was a unmanned weather airship that was accidentally blown off course and accuses the US of overreacting in bringing it down with a missile fired from an F-22 fighter jet.

Since the February 4 downing of the balloon, the United States has sanctioned six Chinese entities it said are linked

to Beijing's aerospace programs. The US House of Representatives subsequently voted unanimously to condemn China for a "brazen violation" of US sovereignty and efforts to "deceive the international community through false claims about its intelligence collection cam-



Secretary of State Antony Blinken also canceled a visit to Beijing that many hoped would stabilise ties that have cratered amid disputes over trade, human rights, Taiwan and China's claim to the South China Sea.

While China denies the balloon was a military asset, it has yet to say what government department or company was responsible.

After initially expressing regret over the balloon's entry into US airspace, China has returned spying accusations against Washington, alongside Emanuel said.

its threats of retaliation. "China firmly opposes this nd will take countermeasures in accordance with the law against the relevant US entities that undermine China's sovereignty and security," Wang said at Wednesday's briefing. China will "resolutely safeguard national sovereignty and its legitimate

rights and interests," Wang said. Also on Wednesday, US Ambassador to Japan Rahm Emanuel said the Chinese balloon's intrusion was part of a pattern of aggressive behaviour

cent beaming of military-grade laser on a Philippine coast guard patrol vessel, the harassment of US planes by Chinese jets and China's opening of illegal police stations in the US, Ireland and other countries. "The balloon to me is not an isolated incident,"

If China wants to be a respected member of the international community, "then you act appropriately to certain basic premises. That is you don't open police stations in other countries ignorant of their laws as if your laws don't have any boundaries," he said.

"This is not exactly the qualities and characteristics of the good neighbour policy," the ambassador said, referring to China's outreach to countries in the Asia-Pacific region.

On Tuesday, Japan's Defence Ministry said at least three flying objects spotted in Japanese airspace since 2019 were strongly believed to have been Chinese spy balloons. It said it has protested and requested explanations

Wellington is on the south-

ern end of the North Island,

which is responding to a

cyclone this week that caused

daughter groomed as successor

South Korea on Wednesday said that it's still premature to determine whether the recently unveiled daughter of North Korean leader Kim Jong Un is being groomed as her father's

Speculation about the status of Kim's daughter, reportedly named Kim Ju Ae and aged about 10, has further intensified since she recently took centre stage at a massive military parade in Pyongyang and appeared in soon-to-be-released postal stamps — both events with her all-powerful father.

During a parliamentary committee meeting in Seoul, Unification Minister Kwon



Youngse, South Korea's top official on North Korea, questioned a belief that she's being primed as the North's next leader.

Kwon cited Kim Jong Un's relatively young age - Kim turned to 39 last month - and North Korea's male-dominated power hierarchy.

There are views that (her appearances) are aimed at talking about a hereditary power

AP DUBAI

More than 100

people were killed in the inci-

dent. Buffetted by strong winds,

Particulars

Total income from operations (net)

Jong Un's age and the fact that North Korea has a much more patriarchal nature than ours, there are also lots of questions about whether North Korea having a woman (prepared to) inherit power now is indeed right," Kwon told lawmakers. Kwon said the girl's repeat-

ed appearances in recent months were more likely meant to shore up public support of Kim's ruling family and prepare for a future hereditary power transfer.

South Korean media have speculated Kim Jong Un also has a son who is older than Kim Ju Ae and a third child, likely a daughter. But Kwon said only Kim Ju Ae is her father's officially confirmed child



Party says ex-leader Corbyn can't run again

AP I LONDON

 ${
m F}$ Jeremy Corbyn, who led the left-of-centre Labour Party while it was stained by allegations of antisemitism, will not be allowed to run for Labour in the next national election, his successor as party leader said Wednesday.

Keir Starmer said the party had changed "and we are not going back, and that is why Jeremy Corbyn will not stand as a Labour candidate at the next general election."

Veteran left-wing lawmaker Corbyn was elected Labour leader in 2015 on a wave of grassroots enthusiasm and led the party to defeat in elections in 2017 and 2019.

A longtime supporter of the Palestinians and critic of Israel, he was suspended from Labour in 2020 after Britain's equalities watchdog found party officials had committed acts of 'harassment and discrimination" against Jews and said anti-Jewish prejudice had been

Starmer said he was deter-

"Antisemitism is an evil and no political party that cultivates it deserves to hold power," he said after the Equality and Human Rights Commission, which has been monitoring Labour for several years, gave the party a clean bill of health.

US military downs Iranian-made drone in Syria

AP BEIRUT

U^S forces shot down an Iranian-made drone flying over a base housing American troops in northeastern Syria, the U.S. Military said Wednesday.

The incident comes more than a week after a deadly 7.8 magnitude earthquake rocked Turkey and Syria, followed by a significant deescalation of violence across the war-torn con-

U.S. Central Command said in a statement that the reconnaissance drone flew over Mission Support Site Conoco on Tuesday afternoon before American forces shot it down.

No group claimed responsibility for flying the drone in northeastern Syria, where it is not uncommon for bases housing U.S. Troops to come under rocket fire or mortar attacks. Iran-backed militia are based nearby, as are sleeper cells of the Islamic State group that was defeated in Syria in March



|Saudi Binladin Group

fined over 2015 crane

defendants were sentenced to six months in jail and fined 30,000 riyals (\$8,000) and another four were sentenced to three months and fined 15,000 riyals (about \$4,000). Okaz did not report their names or national-

The Okaz daily

reported Tuesday that

riyals, or about \$5.3

million, for negligence

and violation of safe-

ty regulations. Three

the 1,350-ton crane collapsed onto the Grand Mosque that houses Islam's holiest site, the The court ruled that the cube-shaped Kaaba, bringing company is not required to pay down slabs of concrete on worblood money to the families of shippers below. Less than two those killed, a traditional form weeks after the Sept. 11 crane of restitution in the conservative collapse, a stampede and crush kingdom. of pilgrims killed more than

The Saudi Binladin Group 2,400 people, according to an Associated Press count. did not immediately respond to a request for comment.

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter / Nine Months Ended December 31, 2022

Delton Gables Limited

Regd. Office: Delton House, 4801, Bharat Ram Road, 24, Daryaganj, New Delhi -110002 Website: www.deltoncables.com, E-mail: dcl@deltoncables.com, CIN: L31300DL1964PLC004255



udice from the party.

31.12.2022

6,797.67

31.12.2022

19,235.72

558.43

566.34

Quarte

1.12.202

(224.88

(224.88)

French pension tension triggers | Magnitude 5.7 quake hits New turbulent parliament debate

Sparks are flying over French President Emmanuel Macron's plan to raise the retirement age — not just in the streets, but in parliament too. The proposed pension reforms have unleashed the most turbulent debate in years in the National Assembly, with uncertainty looming over the final outcome. Tensions at parliament are

fed by the unpopularity of the reform aimed at raising the minimum retirement age from 62 to 64 and requiring people to have worked for at least 43 years to be entitled to a full pension, amid other measures. The bill started being exam-

ined in the lower house of parliament, the National Assembly, last week. Over 20,000 amendments have been proposed, mostly by the leftist opposition coalition Nupes. This makes the debate almost impossible to finish before a Friday night deadline. The government denounced the tactic.

21.02.2023 from 12:00 hrs.



"What do our fellow citizens see? asked Prime Minister Elisabeth Borne at the National Assembly on Tuesday. "A heldup debate - held up by the multiplication of amendments.. Held up by the multiplication of insults... held up by abhorrent personal attacks

In recent days, multiple incidents have marked the debate, from legislators shouting and interrupting each other to insulting remarks toward a minister. In addition, a leftist lawmaker was excluded for 15 days after he tweeted a manipulated photo of himself and Labor Minister Olivier Dussopt.



UJVN Limited (An Uttarakhand Govt. Entere Phone No. 614

RO. No. 152 Corrigendum (Date Extension) Date: 15.02.2023 Due to non submission of sufficient bids & typographical error in date in the tender No. 15,16 & 17/EE(M&G)/MPH/2022-23 invited by Executive Engineer (M&G) Mohammadpur Power House office, the last date of submission of bids may read as 20.02.2023 till 16:30 hrs & date of opening of tender may be read as

Rest terms & conditions remain unchanged. For all details, bidders are advised to visit our website www.ujvnl.com

Executive Engineer (M&G) "AVOID WASTEFUL USE OF ELECTRICITY"

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. LTD. Ede Weiss CIN - U67100MH2007PLC174759

Registered Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098 +91 22 4088 6090 / 6620 3149

APPENDIX IV-A [See proviso to rule 8(6) r/w proviso to Rule 9(1)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Public Notice for E-auction sale of immovable property under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with proviso to rule 8(6) r/w proviso to Rule 9(1) of the Security Interest

Notice is hereby given to the public in general and Borrower & guarantor in particular that the immovable property described herein below ("Secured Asset"), mortgaged to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as Trustee of EARC Trust SC-30, ("EARC"), the physical possession of which has been taken by Authorised Officer of EARC on October 31, 2022, will be sold by way of E-Auction of March 04, 2023 at 12:00 Noon with unlimited extension of 5 Minutes each through e-Auction Agency M/s e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) on the website/portal https://edelweissarc.auctiontiger.net on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and " no recourse" basis for recovery of aggregate dues of Rs. 505.29.95.872.25/- (Rupees Five Hundred Five Crores Twenty Nine Lac Ninety Five Thousand Eight Hundred Seventy Two and Twenty Five Paise Only) as on August 23, 2022, together with interest at contractual rates and other costs and expenses thereon to EARC from KLG SYSTEL LIMITED (in Liquidation) "Borrower") and Mr. Kumud Goel and Ms. Pushpa Lata Goel ("Guarantors") The Description of Secured Asset, Reserve Price and Earnest Money Deposit fo the Secured Assets shall be as follows:


Description of Secured Asset
All that piece and parcel of Industrial plot of land being Plot No. 24, admeasuring 1000 sq. mtr. in Sector 18, Electronics City, Gurgaon, Haryana along with all the building/structures being thereon (total built-up structure-15,750 Sq. Ft.) and bounded as follows: North: Access Road, South: Plot No. 22, East: Access Road West: Plot No. 23

7,50,000/- Earnest Money Deposit Rs.1,14,75,000/
OTHER IMPORTANT DETAILS
20/02/2023 to 28/02/2023, between 11:00 am to 4:00 pm
On working days between 20/02/2023 to 28/02/2023.
On working days between 27/02/2023 to 02/03/2023.
By 2pm on 03/03/2023
By 5pm on 03/03/2023
12 Noon on 04/03/2023
Ac No. 0004103000054719, IFSC No. IBKL0000004, IDBI Bank, Mittal Court, Nariman Point, Mumbai.
7506642534 Meghraj.deshmukh@edelweissarc.in

in the Secured Creditor's website i.e. www.edelweissarc.in/Propertysale

Date: 15.02.2023 **Authorized Officer** Contact No: 7506642534 Place: Mumbai

Zealand, no damage reported



AP WELLINGTON

Amagnitude 5.7 earthquake Struck near the New Zealand capital Wellington on Wednesday, the U.S. Geological Survey said. There were no immediate reports of damage.

The quake struck under the Cook Strait that separates the North and South Islands at a depth of 74 kilometers (50

PUBLIC NOTICE

is to inform to the public at large Mr. Jai Dayal who had purchased the Commercial Shop No. 3 (Ground Floor) total area measuring 12.31 Sq. Mfrs. built on Pot No. IIIF/575 Situated at Vashali, Ghaziabad, U.P from Mohd. Shahid, through Sale Deed dated 06.08.2015, (Doc. No. 14948) and same to be financed & mortgaged by Vastu Housing Finance Corporation Ltd.

If any Person having any type of claim/ right/title/interest over the said property, may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 07 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lien,

Lucem Legal LLP B-93B, Second Floor, Opp. SBI Bank, Sector - 2, Noida, UP-201301; Contact # 0120 - 4269379

Notice is hereby given to the General Public or behalf of our Client Le. ICICI Bank Ltd. Intel Misr. Purva Mairin is owner mutated or Residential Dwelling Luniffst Beaning no. 401, on 4th Floor, guerral reasoning 1316 4g. Rsj. In Block-S, shatted in complex mutated in complex novemer an State Green'. Built on Pibl No. D-008, Section-44, Medic, Distr. Gautani Built no Pibl No. D-008, Section-44, Medic, Distr. Gautani Built no Pibl No. D-008, Section-44, Medic, Distr. Gautani Built no Pibl No. D-008, Section-44, Medic, Distr. Gautani Built no Pibl No. D-008, Section-44, Medic, Distr. Gautani Built no Pibl No. Built no Pibl No. Built no Pibl No. Built no Pibl No. D-008, Section-44, Medic, Distr. Gautani State Section State of Late Miss Varisha Valid, who was owner of the said property by virtue of Transfer Deec care. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Poed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Registration No. 4527 executed by Mr. Said Deed dated 22-11 2010, Regi

widespread flooding and landslides that left four people

For and on behalf of President of India, Sr. Divisional Mechanical Engineer (Cha.

Name of work			g and clamping of piping for FIBA, Air spring rol equipment in Delhi division for a period of		
Advertise	d Value	₹2	29,11,838/- (including the provision of GST)		
Earnest Money to be deposited			₹58,200/- through net banking or gateway only		
Date & Time for submission of tender and opening of tender					
Location of tender of the office	articulars, Notice Board where complete details can be seen and addres: ce from where the tende be purchased etc.	s	Website www.ireps.gov.in Mechanical Branch, Divisional Railway Manager's Office, Northern Railway, State Entry Road, New Delhi-55 on any working day up to 17:00 hrs.		

Note: The complete particulars of the tender may be found in website No.: 197-S/254/FIBA-A.spg & A.susp control/22/MC-IV Dated: 15.02.2023

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE 477/2023 PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Folio No. Folio No. TL8024184

Share Gettfiscate Noticy 24144 for 400 Share(s) bearing
Dissoctive Nos. 187031285-187031694 (bott indusively of
Lube Investments Of India Lumind naving its Registered
Office at Dare House-214 NSC Bose Road, Cheminal,
(Madrass, Tamil Natu-Good) registered in the harne(s)
of Goramoorthy Thugurasundari hashrave been lost
InVe. have now applied to the Company for issue of
dusplicate share certificate(s) in lieu of the above. Any
person harly any dejection to the issue of dusplicate
Share Certificate(s) in lieu of said original Share Certifi-cate(s), sequested to logge hisher objection for dereto with
the Company at the above address or with their Registrary,
Kfin Technologies PM Ltd. Addr. Selenium Tower B.
Pecc-31 & 32, Garchisowil, Financial belact, Nariabkrangodia,
Hyderabac-500032, in Whiting, within 15 days from
the date of publication of this Notice.

Name & Address of the Shareholderfest

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Felor No.11F0024184 Shars
Certificate No(s),24184 for 400 share(s) bearing
Distinctive No.8.18/031293-18/031596 (short indissive)
of Cholamandiam Financial Hetidings Limited having its
Registered Office at Durer House-234 NSC Bose Road
Chernal, (Mackras), Tamil Nadu-000001 registered is the
anne(s) of Cummonthy Tiruprasundari nashave been
lost. (We. have now applied to the Company for issue of
duplicate Shart Certificate(s) in teu of the shore. Arty
person having any objection to the issue of duplicate
the company of the shore of the shore of the contractice), is requested to loady having of the first contractice of the shore of the shore of the conwith the Company at the above address or with their
Tower-B, Plob. 31 & 32, Gachbows, Financial District
Name As Address of the Shareholder(s)

Name Address of the Shareholder(s)

Name & Address of the Shareholder(s) importhy Tirupurasundari Add: -A1, Rahul Nar

Emaar India Limited

(formerly known as Emaar MGF Land Limited) CIN-U45201DL2005PLC133161 Registered Office: 306-308, Square One, C-2, District Centre, Saket, New Delhi-110017

Email ID - bharat.garg@emaar.ae, Website -www.in.emaar.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2022

		Quarter ended			Nine mont	Year ended	
S. No.	Particulars	31 December 2022	30 September 2022	31 December 2021	31 December 2022	31 December 2021	31 March 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	6,814.99	3,725.96	10,974.36	13,297.05	19,111.26	25,486.65
2	Net profit/(loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,370.99	(1,010.59)	1,165.56	(576.16)	76.67	1,894.47
3	Net profit/(loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	87.14	(1,010.59)	1,165.56	(1,860.01)	76.67	1,894.47
4	Net profit/(loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	87.14	(1,010.59)	1,165,56	(1,860.01)	76.67	1,894.47
5	Total Comprehensive income/(loss) for the period/year [Comprising Profit / (Loss) for the period/year (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	93.63	(1,010.11)	1,168.71	(1,853.15)	84.37	1,907.93
6	Paid up Equity Share Capital	1.693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(37,504.38)	(37,598.00)	(37,474.78)	(37,504.38)	(37,474.78)	(35,651.22)
8	Net Worth	(35,810.51)	(35,904.13)	(35,780.91)	(35,810.51)	(35,780.91)	(33,957.35)
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	78,831.95	78,387.27	67,066.34	78,831.95	67,066.34	65,560.88
10	Outstanding Redeemable Preference Shares		5.5	35			137
11	Debt Equity Ratio	(2.05)	(2.08)	(1.79)	(2.05)	(1.79)	(1.82)
12	Earning / (Loss) Per Share (in Rupees) (Basic & Diluted)	0.51	(5.97)	6.88	(10.98)	0.45	11.18
13	Capital Redemption Reserve			(*			(4
14	Debenture Redemption Reserve	738.13	738.13	738.13	738.13	738.13	738.13
15	Debt Service Coverage Ratio	0.29	0.13	0.65	0.08	0.40	0.54
16	Interest Service Coverage Ratio	1.07	0.43	1.76	0.64	1.03	1.32

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with stock exchange under regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full formats of financial results are available on the website of the stock exchange www.bseindia.com and on the Company's website www.in.emaar.com For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, pertiner

disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the website of stock exchange www.bseindia.com. 3. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the

meeting held on February 14, 2023. For and on behalf of Board of Directors of

Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 191.86

Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 157.34 490.60 (198.59)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period 494.14 (200.73)(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each) 864.00 Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 10/- each) (a) Basic (Rs. 1.82 5.68 (b) Diluted (Rs.) 1.82 5.68 (2.30)

The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of

The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine months Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.deltoncables.com). The above result have been prepared in accordance with principle and procedures of indian Accounting Standards(Ind AS) as notified under the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of Companies Act, 2013.

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on

Place : New Delhi Date : Feb. 14, 2023

COSCO (INDIA) LIMITED
CIN: L25199DL1980PLC010173

Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007 Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹in lacs)

SI.	Particulars	(Quarter End	ed	Nine Mont	Year Ended	
No.	to when adopting all the control and the con-	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	3,952.51	3,853.77	3,460.82	11,170.63	9,489.45	13,701.06
2	Net Profit for the period before Tax	48.48	13.63	104.73	78.56	151.64	250.90
3	Net Profit for the period after tax	53.35	7.24	64.60	67.37	95.69	192.01
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	53.35	7.24	64.07	67.37	95.37	212.30
5	Equity Share Capital	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10
6	Other Equity						4,168.39
7	Earnings Per Share (of ₹10 each)						
(a)	Basic (₹)	1.28	0.17	1.55	1.62	2.30	4.61
(b)	Diluted (₹)	1.28	0.17	1.55	1.62	2.30	4.61

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com/corporates) and

on the Company's website www.cosco.in. 2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the meeting held on February 14, 2023.

By Order of the Board for Cosco (India) Limited

Narinder Kumar Jain Managing Director DIN: 00195619

Place : Delhi Date : 14.02.2023

Jamal Majed Khalfan Bin Theniyah DIN - 07534810

मोदी, बाइडन ने प्रौद्योगिकी साझेदारी महत्ता पर की चर्चा

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका और भारत के बीच प्रौद्योगिकी संबंधी साझेदारी की महत्ता पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। दोनों नेताओं ने अपनी बातचीत में साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग को विस्तार देने एवं आर्थिक विकास को आगे बढाने के लिए मिलकर व क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) जैसे समूहों में काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई।

दोनों नेताओं ने एअर इंडिया और बोइंग के बीच ऐतिहासिक समझौते की घोषणा के बाद मंगलवार को फोन पर बात की। इस समझौते के तहत एअर इंडिया अमेरिकी विमान निर्माता से 200

समुद्रों के बढ़ते जलस्तर

से कुछ देशों के अस्तित्व

पर होगा संकट : गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के

महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने

मंगलवार को सचेत किया कि यदि

ग्लोबल वार्मिंग को चमत्कारिक रूप

से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित

कर भी लिया जाए, तो भी समुद्र का

जलस्तर काफी बढेगा और बांग्लादेश,

चीन एवं भारत जैसे देशों के लिए यह

खतरे की बात है। गुतारेस ने कहा कि

पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी राह

पर आगे बढ़ने की आशंका है, जहां

समुद्रों का जलस्तर बढ़ने का मतलब

कई देशों के लिए अस्तित्व का संकट

होगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि

डिग्री का हर अंश मायने रखता है,

क्योंकि अगर तापमान में दो डिग्री

सेल्सियस की वृद्धि होती है तो समुद्र

का स्तर दोगुना हो सकता है। उन्होंने

समुद्र के स्तर में वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद की बैठक के उद्घाटन

पर कहा कि जलवाय परिवर्तन से

निपटने की खातिर आवश्यक कदम

उठाने के लिए समर्थन तैयार करने में

परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस

बैठक में 75 देशों ने भाग लिया।

गुतारेस ने कहा कि किसी भी परिदृश्य

में बांग्लादेश, चीन, भारत और

नीदरलैंड जैसे देश जोखिम में हैं और

काहिरा, लागोस, मापुटो, बैंकॉक,

ढाका, जकार्ता, मुंबई, शंघाई,

कोपेनहेगन, लंदन, लॉस एंजिलिस.

न्युयॉर्क, ब्युनस आयर्स और सैंटियागो

सहित हर महाद्वीप के बड़े शहरों पर

मरने वालों की संख्या

अंताक्या। तुर्किए के राष्ट्रपति रजब

तैयब एर्दोआन ने मंगलवार को घोषणा

की कि पिछले सप्ताह आए भुकंप के

कारण देश में अब तक 35,000 से

अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह

100 साल पहले देश की स्थापना के

बाद से सबसे घातक आपदा है। मृतकों

की संख्या में और वृद्धि होना तय है

क्योंकि मलबे को हटाने का काम अब

भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं भूकंप के

बाद बेघर हुए हजारों लोगों में से कई

अभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के

लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में

भीषण ठंड उनके लिए और मुसीबत

खड़ी कर रही है। तुर्किए में 1939 में

एजिंकन भूकंप में लगभग 33,000

लोग मारे गए थे। हालिया भूकंप में पुष्ट

मौतों के आंकड़ों में यह संख्या पीछे छूट

गई है। एदोंआन ने कहा कि छह फरवरी

को कहारनमारस और उसके बाद के

झटकों के परिणामस्वरूप 1,05,505

घायल हुए थे। पडोसी देश सीरिया में

लगभग 3,700 लोगों की मौत की पुष्टि

की गई है।

इसका गंभीर प्रभाव पडेगा।

तर्किए में भकंप से

३५ हजार के पार

राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन ज्यां पियरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उन्होंने (मोदी एवं बाइडन ने) भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी के महत्व पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने अमेरिका-भारत संबंधों की ताकत की पुष्टि की और अपनी साझी प्राथमिकताओं पर सहयोग को विस्तार देने एवं आर्थिक विकास को आगे बढाने के लिए मिलकर व क्वाड जैसे समूहों में एवं मिलकर काम करते रहने की प्रतिबद्धता भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच इस अहम क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को हर प्रकार

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में

ध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है

और अगर तेजी से विकास

करना है तो यह आवश्यक

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है

कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पुनर्संतुलन

हो रहा है और वह युग पीछे छट गया है

जब प्रगति का मानक पश्चिमीकरण को

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में धीरे-धीरे

व्यापक बहु-ध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है

और अगर तेजी से विकास करना है तो

यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक

पुनर्संतुलन भी हो। जयशंकर यहां

बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन

के अवसर पर बोल रहे थे। अंतरराष्ट्रीय

संबंधों के संदर्भ में हिंदी के महत्व को

बढावा दिए जाने की जरूरत जताते हुए

जयशंकर ने कहा कि भाषा न केवल

पहचान की अभिव्यक्ति है बल्कि भारत

और अन्य देशों को जोड़ने का माध्यम

मंत्रालय की ओर से आयोजित इस

है कि सांस्कृतिक

भाषा। नांदी (फिजी

पुनर्संतुलन भी हो

धीरे-धीरे व्यापक बहु-



एक नई रणनीति विकसित करने के लिए काफी समय से लंबित क्वाड 2017 में आकार दिया था। यह पुछे जाने पर कि क्या बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी को इन गर्मियों में व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है, के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए पियरे ने कहा, मैं इस पर टिप्पणी

मानक पश्चिमीकरण को माना जाता था

सम्मेलन में दुनिया भर से हिंदी के

करीब।,200 विद्वान व लेखक भाग ले

रहे हैं। देनाराउ कनवेंशन सेंटर में तीन

दिन चलने वाले सम्मेलन के उदघाटन

के दौरान फिजी के राष्ट्रपति रातु विलीमे

कटोनिवेरी के अलावा भारत सरकार में

गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तथा विदेश

राज्यमंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे।

फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा

का दर्जा हासिल है। इस मौके पर

जयशंकर और राष्ट्रपति कटोनिवेरी ने

संयुक्त रूप से एक डाक टिकट भी जारी

किया। उद्घाटन सत्र में पहले फिजी के

प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका को मौजूद

रहना था, लेकिन भारतीय अधिकारियों

ने बताया कि यहां संसद सब के चलते

भाग लिया। राबुका हाल ही में

केवल एक मत अधिक

भी है। फिजी के प्रमुख शहर नांदी में प्रधानमंत्री बने हैं और 55 सदर्स्डय

फिजी सरकार और भारतीय विदेश संसद में उनके पास विपक्ष के मुकाबले

भारत ने लगाई संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मोटे अनाजो पर विशेष प्रदर्शनी

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मोटे अनाजों की एक विशेष प्रदर्शनी लगाई है।

भारत में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों, उनकी पोषकता और

स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित था। साथ ही, प्रदर्शनी में प्रदर्शित अनाजों की कैलोरी

संबंधी जानकारी दी गई है। प्रदर्शनी में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सौ से

अधिक प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपने संक्षिप्त बयान में

यह बताया कि क्यों भारत 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम)

बनाने का प्रयास कर रहा है और कैसे मोटे अनाज सतत विकास लक्ष्यों

(एसडीजी) की ओर सामृहिक मार्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण समाधान है।

इसके बाद आईवाईएम पर एक वीडियो जारी किया गया और उप महासचिव

अमीना मोहम्मद द्वारा एक विशेष संबोधन दिया गया। एमआरआईडीए ग्रुप के

सह-संस्थापक और निदेशक अरुण नागपाल ने खेत से भोजन की मेज तक बाजरा

के साथ अपनी यात्रा पर अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र

महासचिव के शेफ डी कैबिनेट अर्ल कर्टेने रैट्रे द्वारा एक विशेष संबोधन दिया गया,

बीबीसी दफ्तर पर कार्रवाई से अवगत है

पर कोई निर्णय नहीं दे सकतेः अमेरिका

जिसके बाद प्रदर्शनी को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन द्वारा मंगलवार को शुरू की गई प्रदर्शनी

नहीं करूंगी, लेकिन उनके बीच अच्छी बातचीत हुई। प्रेस सचिव के अनुसार, उन्होंने बोइंग और एअर इंडिया के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते पर चर्चा की। पियरे ने कहा, राष्ट्रपति बाइडन ने उल्लेख किया कि यह बिक्री 44 राज्यों में कैसे 10 लाख से अधिक अमेरिकी किस प्रकार एअर इंडिया को भारत में हवाई परिवहन की बढ़ती मांगों को परा करने में मदद करेगी। बाइडन ने बोइंग-एअर इंडिया के बीच समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की एक घोषणा के अनुसार, बोइंग और एअर इंडिया के बीच एक सहमति बनी है, जिसके तहत एअर इंडिया बोइंग से 34 अरब डॉलर में 220 खरीदेगी। इनमें 190 बी737 मैक्स 20 बी787, और 10 बी777एक्स शामिल हैं। समझौते के तहत 70 और विमान खरीदने विकल्प होगा जिससे कुल लेन-देन मुल्य 45.9 अरब डॉलर

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से और सार्थक वार्तालाप हुई। मोदी ने एक ट्वीट में कहा था, राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बात मोदी ने एक ट्वीट में कहा था, राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बात करके खुशी हुई। हम ऐतिहासिक एअर इंडिया और बोइंग समझौते का स्वागत अवसर पैदा करने में मदद करेगा। पीएमओ ने कहा कि मोदी और बाइडन ने भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी प्रगाढ होने पर संतोष परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में

मजबूत विकास हुआ है।

वह युग पीछे छूट गया है जब प्रगति का

मंगलवार को यहां दौरे के दौरान उनके देश के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐसे समय में यह यात्रा की है, जब तेहरान परमाणु हथियारों के विकास को लेकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच चीन व रूस के साथ अपने रिश्तों को विस्तार देने का प्रयास कर रहा है। रईसी के साथ शी की बैठक के संबंध में चीन के आधिकारिक बयान में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया

इस्लामाबाद। चीन ने पाकिस्तान में करते हुए अपनी वेबसाइट पर इसकी कहा गया, तकनीकी मुद्दों के कारण, इस्लामाबाद में चीनी दूतावास का

जोखिम हो सकता है।

It is to inform to the public at large Mr. Jai Dayal who had purchased the ercial Shop No. 3 (Ground Floor) built on Pot No. IIIF/575 Situated at Vashali, Ghaziabad, U.P from Mohd. Shahid, through Sale Deed dated 06.08.2015, (Doc. No. 14948) and same to be financed & mortgaged by Vastu Housing Finance Corporation Ltd.

Lucem Legal LLP B-93B, Second Floor, Opp. SBI Bank, Sector - 2, Noida, UP-201301; Contact # 0120 - 4269379 डलवेइस असेट रिकस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड 💉 Edelweiss सीआईएन – यू67100एमएच2007पीएलसी174759

पंजीकृत कार्यालय : एडलवेइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुंबई - 400098 +91 22 4088 6090/6620 3149 परिशिष्ट — IV-ए [(देखें नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(6) का परंतुक]

अवल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के परंतुव के साथ पठित नियम 9(1) के परंतुक के अधीन अचल सम्पत्ति की ई-नीलागी बिक्री हेत्

एतदृद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार एवं गारंटर को सूचना दी जात है कि ईएआरसी टस्ट एससी-30 के टस्टी की हैसियत से कार्यरत एडलवेडस असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ("ईएआरसी") के पास बंधक / प्रमारित रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति ('प्रतिमूत आस्ति'), जिसका भौतिक कब्जा ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकार द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 को लिया जा चुका है, ईएआरसी की केएलजी सिस्टेल लिमिटेर (परिसमापन में) ('कर्जदार') और श्री कुमुद गोयल तथा सुश्री पुष्प लता गोयल ("गारंटरगण") की तरफ 23-08-2022 तक बकाया रू. 505,29,95,872.25 /- (रू. पां सौ पांच करोड़ उन्तीस लाख पिच्यानवे हजार आठ सौ बहत्तर तथा पैसे पच्चीस मात्र) उस पर आगे संविदात्मक दशें पर ब्याज तथा अन्य खर्वों एवं लागतों सहित की वसूर्ल के लिए "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई--नीलामी एजेन्सी मैसर ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से उनके वेबसाइर

पोर्टल https://edelweissarc.auctiontiger.net पर 04 मार्च, 2023 को दोपहर 12.00 बजे, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ, बेची जाएगी। प्रतिमूत आस्ति का वर्णन, प्रतिमूत आस्तियों हेतु सुरक्षित मूल्य और घरोहर राशि जम

प्रतिभूत आस्ति का वर्णन सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति औद्योगिक भूखंड सं. 24, परिमाप 1000 वर्ग मीटर सेक्टर-18, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, गुरूग्राम, हरियाणा, उसके ऊपर सभी बिल्डिंग/स्ट्रक्चर्स सहित (कुल निर्मित स्ट्रक्चर – 15,750 वर्ग फीट) और चौहद्दी निम्नानुसार है : उत्तर : पहुंच मार्ग. दक्षिण : प्लॉट नंबर 22, पूरब : पहुंच मार्ग, पश्चिम : प्लॉट नंबर 23

सुरक्षित गूल्य	%. 11,47,50,000/- घरोहर राशि जमा %. 1,14,75,000/-
,	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
स्थल निरीक्षण	20-02-2023 से 28-02-2023 तक, पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच
दस्तावेज सत्यापन	20-02-2023 से 28-02-2023 के बीच कार्यदिवसों को
बोली दस्तावेज क्रय	27022023 से 02032023 के बीच कार्यदिवसों को
ईएमढी राशि भुगता	न 03-03-2023 को जप. 02.00 बजे तक
बोली दस्तावेज प्रस् करने की अंतिम ति	
ई—नीलामी बिक्री क आरंभन	ा 04-03-2023 को दोपहर 12.00 बजे
बैंक विवरण	खाता सं. 0004103000054719, आईएफएसशी नंबर IBKL0000004, आईडीबीआई बैंक, मित्तल कोर्ट, नरीमन पाइंट, मुम्बई
अधिकारी का सम्पव विवरण	7506642534 Meghraj.deshmukh@edelweissarc.in

नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः www.edelweissarc.in/Propertysale देखें तिथि : 15-02-2023 प्राधिकृत अधिकार्र

सम्पर्क हेतु नंबर : 750684253

स्थान : मुंबई

चीनी राष्ट्रपति ने ईरान के प्रति समर्थन व्यक्त किया

बीजिंग। चीनी नेता शी चिनिफंग ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के गया कि क्या उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की।

इस्लामाबाद में चीनी वाणिज्य दूतावास कार्यालय अस्थार्ड स्प से बंद

खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण चीनी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह देने के कुछ दिन बाद तकनीकी मुद्दों के कारण इस्लामाबाद में अपने दुतावास के वाणिज्य खंड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है। दूतावास ने तकनीकी समस्यौ की प्रकृति या इसके बंद रहने की समयसीमा के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करने से परहेज घोषणा की। संबंधित अधिसचना में वाणिज्य खंड 13 फरवरी, 2023 से अगली सूचना तक अस्थाई रूप से बंद रहेगा । यह अधिसूचना चीन सरकार द्वारा पिछले सप्ताह जारी किए गए उस नोटिस के बाद आई है, जिसमें चीनी नागरिकों को यह कहते हुए पाकिस्तान में सतर्क रहने की सलाह दी गई थी कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण उन्हें

PUBLIC NOTICE

If any Person having any type of claim/ right/title/interest over the said property, may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 07 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lien,

दिखीं गुब्बारे जैसी वस्तुएं

प्रगाढ़ करने पर चर्चा की।

जयशंकर और फिजी के

संबंधों पर चर्चा की

उप प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय

नांदी (फिजी) विदेश मंत्री एस

जयशंकर ने बुधवार को फिजी के

उपप्रधानमंत्री बिमान प्रसाद से

मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों

को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर

चर्चा की। जयशंकर, 12वें विश्व

हिंदी सम्मेलन में शामिल होने के

महासागर में स्थित इस द्वीप देश की

तीन दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे

हैं। उन्होंने तस्वीरों के साथ किए गए

ट्वीट में कहा, नई दिल्ली में हमारी

मुलाकात के कुछ दिन बाद फिजी

के उपप्रधानमंत्री बिमान प्रसाद से

मिलकर अच्छा लगा। हमारे विकास

सहयोग के जरिए संबंधों को और

हवाई क्षेत्र में गुब्बारे जैसी रहस्यमई वस्तु के दिखाई देने की सचना दी। गुब्बारे जैसी वस्त दिखाई देने के बाद रोमानिया ने अपने हवाई क्षेत्र मे वस्तु का पता लगाने के लिए सैन्य विमानो त्त्रे भेजा।

कार्पोरेट देनदार का नाग पैन/शीआईएन/एसएसपी नंबर सहित

आरितमां अवस्थित हैं

प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की संस्थ

पिछले विलीय वर्ष में बेचे गए

कर्मचारियाँ / श्रमिकों की शंख्य

प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की गात्रा

अतिशिक्त विवरण, यो वर्ष के अतिम जयलका

विश्तीय विवरणे (अनुसूचियाँ शहित), क्रेक्टिसं की सूचियाँ, प्रक्रिया की अनुसारी घटनाओं हेतु संबद्ध तिथियों सहित __ प्र चपलका है

संहिता की धारा 25(2)(एव) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु बाग्रता ... पर

उपलब्ध हैं जमिक्ति की जमिलांका की प्राप्ति हेतू

जनतिम सूची के बारे में आपस्तियां पस्तुत करने हेतु अतिम तिथि

FICICI Bank

विधि : 16-02-2023

स्थान : नई दिल्ली

13 ईबोबाई प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया ई-नेत आईडी idzire.cirp@gmail.com

विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाले भारतीय मूल के नेताओं की सूची में शामिलें हुईं निक्की हेली

वाशिंगटन/लंदन। ऐसे में जब रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी की औपचारिक घोषणा कर दी है, वह भारतीय मल के उन नेताओं की लंबी सूची में शामिल हो गई हैं जिनका वर्तमान में विश्व की महत्वपूर्ण राजधानियों में राजनीति पर प्रभाव है। अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बढते प्रभाव को कमला हैरिस की सफलता में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, जो देश की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बर्नी। वह 2017 से 2021 तक कैलिफोर्निया की सीनेटर थीं। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैरिस ने 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया। उनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था और उनके माता-पिता भारतीय तथा जमैका मूल के थे।

नवंबर में महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव में, सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के रिकॉर्ड पांच भारतीय-अमेरिकी सांसद- राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा और श्री थानेदार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। कैलिफोर्निया से एक प्रमुख नेता हरमीत ढिल्लों ने हाल ही में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) की अध्यक्षता के लिए चुनाव लड़ा था। ऋषि सुनक पिछले साल ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वह 210 वर्षों में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। वह ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के गोवा मल की सएला ब्रेवरमैन उनकी गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सनक के पूर्ववर्ती बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में प्रीति पटेल गृह मंत्री थीं। वहीं, आलोक शर्मा जॉनसन कैबिनेट में अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री थे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो एरिक वरदकर भी भारतीय मल के हैं।

PUBLIC NOTICE

My, Client Namely Raman Preet Singh S/o Shri Sumninder Singh R/o 1387 A201, New House

No. 350. Parkash Mohalla, Garhi, New Delhi-

110065 do hereby notify for public at large that he is executing the Wili of his grandfather Late

Dalbir Singh after his death, who has expired on

04.03.2020, and as per his will deed made on 24.08.2019 in favour of my client. Any person/s have any objection/claim (s), interest for the proposed Will Deed Registration of aforesaid Late Dalbir Singh may contact the undersigned within 2 days from the publication of the notice, children when the client of the notice, children when the client of the notice.

failing which the claim of any such person will be considered to have waived and or abandoned

and the Will shall be Registered and Applicator

fudhister Bhardwaj Advocate, 26, Mehtab

Dharmshala, Kalkaji Temple Complex, Kalkaji, New Delhi. M.No. 9911541326

नैसर्स आई-किजायर हॉस्पिटेलिटी प्रा. हि

सीमाईएन - U93000DL2014PTC265146

नीआईआरपी आरंग होन की तिथि को कोई श्रमिक या

विस्तान विवरण idzire.cirp@gmail.com पर ई-मेल

वास्ते गैसर्स आई-डिजायर हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि

पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IPA-N00342/2021-22/13657

कार्यालय : आर-जैंड-29पी/205ई, लेन नंबर 10, इंद्रा पार्क पालम कालोनी, नई दिल्ली - 110045 ई-मेल : ipskverma@gmail.com सम्पर्क नंबर 9716633301

44 - AADCCI5103J

145 ए/9, किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

that Kotak Mahindra bank Ltd has organized an auction in below mention respect of Vehicles. VEHICLES FOR SALE

PUBLIC NOTICE

This is to inform public in genera

 TATA LPT 1109 REG. NO. UP16GT0480-YOM 2019 TATALPT709FB REG. NO.

DL1LAC6109-YOM -2019 TATAMOTORS TATAACE REG. NO. UP15ET9142-YOM -2021 4) LPT1109FBP TATAMOTORS REG. NO.HR38AC919-YOM-2021

5) VOLVO EICHER - CB VE 10 59_FULLY_BUILT REG. NO. DL1LAC8245-YOM -2019

6) TATAMOTORS TATAACE REG. NO.UP15ET9085-YOM-2020 LPT709CH TATA REG. NO.

DL1LAG2665-YOM -2022 8) CB LPT1212 TATAMOTORS REG.NO.HR38AC9191-YOM-2020 9) TATA ACE REG. NO.

DL1LAG8228 -YOM -2022 10) MAHINDRA_AND_MAHINDRA - CB MAHINDRA BLAZO37 FBT

GOODS REG. NO. UP53ET7159 YOM 2018 11) TATA ACE REG. NO. DL1LAH5498 -YOM -2022

12) ASHOK LEY AL 1214 REG. NO.UP37AT2456-YOM -2019 UNDER HYPOTHECATION WITH

IS UNDER SALE IN ITS AS IS WHERE IS CONDITION INTERESTED PARTIES CAN GIVE THEIR QUOTATIONS WITH IN 7 DAYS BRANCH ADDRESS:

KOTAK MAHINDRA BANK 3RD FLOOR, PLOT NO 7, SECTOR 125, NOIDA-201313 OR CONTACT : ABHINAV LAL KOTAK MAHINDRA BANK LTD. CONTACT NO.7798988481

EMAIL-abhinav.lal@kotak.com

सांकेतिक कब्जे की सचना

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि काँ प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधीहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया

है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई

क्र.	कज़ेदार / सह-कज़ेदार का	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक	डिमांड नोटिस की तिथि/		
सं.	नाम / ऋण खाता क्र.	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस में राशि (रु.)		
1.	शशांक अरुण बी चौधरी/	फ्लैट नंबर- 2504, 25वीं मंज़िल, टॉबर- गंगा, महागुन मंत्र- II प्लॉट नंबर- GH-01, सेक्टर-10, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) नोएडा/ फरवरी 10, 2023	सितंबर 26, 2022 रु. 25,60,178/-	दिल्ली	

ध्परोक्त दर्शाए गए कर्जदार/सह–कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9

दिनांक : फरवरी 16, 2023

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

प्राधिकत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लि.

वसाइट

डेल्टन केबल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय :- डेल्टन हाउस, 4801, मरत राम रोड, 24, दरियागंज, नई दिल्ली-1110002 w.deltoncables.com, ई—गेल :- dcl@deltoncables.com, शीआईएन :- एल३१३००ढीएल१७७४गीएलशी० 31 दिसम्बर 2022 को समाप्त तिमाठी / गौ माह हेत अलेखापरीक्षित विलीय परिण

	31 दिसम्बर, 2022 का समान्त विमाहा/मा माह हतु अलखापरादित वित्ताय	disallal di	Iddial	क. लाख म
क. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 31—12—2022	नी माह समाप्त 31—12—2022	तिमाही समाप्त 3112-2021
			अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षि
1.	परिवालन से कुल आय (शुद्ध)	6,797.67	19,235.72	4,157.14
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदाँ से पूर्व)	191.86	558.43	(224.88)
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम, कर से पहले, (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	191.86	566.34	(224.88)
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाग, कर पश्चात, (अपवाद तथा/अथवा असाधारण गर्दों के बाद)	157.34	490.60	(198.59)
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	153.79	494.14	(200.73)
6.	इक्किटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य क. 10/- प्रत्येक)	864.00	864.00	864.00
7.	प्रति शेयर अर्जन (असापारण गर्दों से पूर्व) (क. 10/- प्रत्येक का)			
	(ক) মূল (ক.)	1.82	5.68	(2.30)
	(ख) तनुकृत (रू.)	1.82	5.68	(2.30)

(१) उपरोक्त विवरण सेवी (सूधीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावती, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्व में प्रस्तुत किए अलेल्यापरीक्षित विनाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। विमाही / नी गाह हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट : (www.deltoncables.com) पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त परिचाम केन्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट अनुसार कप्पनिल (मारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचि मारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के रिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित और तदुपरांत निदेशक गंढल द्वारा 14 फरवरी, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए है कृते एवं हिते निदेशक गंडा डेल्टन केवल्स लिमिटे

हस्ता/ विवेक गुपा (प्रबंध निदेशक)

THE PIONEER O

CHANGE OF NAME

I, Bhawna Singh D/o Sh Rattan Singh R/o M-213, Greater Kailash Part-II, New Delhi-110048 hereby declare that my name Bhawna Singh mentioned in my Aadhar Card No. 694238460727 and Bhavna Singh mentioned in my 10th & 12th Class Certificate henceforth both names are one and the same person for all future purpose.

PD(90270)C

वह दिल्ली में बीबीसी के कार्यालय पर मानवाधिकारों के तौर पर अभिव्यक्ति भारतीय कर प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे सर्वे ऑपरेशन से अवगत है, लेकिन वह कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं। आयकर प्राधिकारियों ने कहा है कि यह कार्वाई कर चोरी की जांच के सिलसिले में की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बोबीसी कार्यालयों की तलाशी लिए जाने के बारे में जानते हैं। आपको इस

संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए

भारतीय प्राधिकारियों के पास जाना

करते हैं। हम दुनियाभर में लोकतंत्रों अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि को मजबूत करने में योगदान देने वाले की स्वतंत्रता और धर्म एवं आस्था की स्वतंत्रता की महत्ता पर जोर देते हैं। इसने इस देश में यहां लोकतंत्र को मजबूत किया है। इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि ए सार्वभौमिक अधिकार दनियाभर के लोकतंत्रों का आधार हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह कदम लोकतंत्र की भावना या मूल्यों के खिलाफ है, प्राइस ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। हम इन तलाशियों (सर्वे ऑपरेशन) के तथ्यों से अवगत हैं. लेकिन मैं कोई निर्णय देने की स्थिति चाहिए। प्राइस ने कहा, हम दुनियाभर में नहीं हूं।

में स्वतंत्र प्रेस की महत्ता का समर्थन

रोमानिया और मोल्दोवा में

बखारेस्ट। रोमानिया और मोल्दोवा दोनो देशो के अधिकारियों ने मंगलवार को अपने देश के